

(6)

અસ્ટ્રો પ્લાને

નવેલ નં 1086.

ગાજિયાબાદ રાજ્યાધિકારી ગારિફલાલ

સ્થાયાલય ઉપજિલાધિકારી / સહાયક કલેક્ટર (પ્રથમ શ્રેણી) ગાજિયાબાદ ।
 વાદ સંખ્યા 6/05-06 અન્તર્ગત ધારા 161 ઉઠોરો જર્મીદારી વિનાશ અધિનિયમ
 ગ્રામ ડૂંડાહેડા પરગના લોની તહરીલ વ જિલા ગાજિયાબાદ

ગૈરો સ્ફેયર પ્રાંલિઓ

બનામ

ગૈરો એસોટેક રિયલટી પ્રાંલિઓ

નામ નિર્ણય નં ૨૧૦.૨૦૮

વાદી ગૈરો સ્ફેયર પ્રાંલિઓ, બી-47, કનાટ પ્લેસ, ગઈ દિલ્લી દ્વારા વરેષ્ટ પ્રવાન્ધક કી ઓર રો પ્રાર્થના પત્ર દિનાંક 12.04.2006 ઇસ આશય સે પ્રરતુત હિસ્સા હૈ કે ઇસ પ્રાર્થના પત્ર કે રાલાનક કે પૈરા-1, ગે વર્ણિત ભૂમિ કો પ્રાર્થી પ્રથમ પક્ષ સંક્રાગણીય ભૂમિધર ખાતેદાર હૈ। પ્રથમ પક્ષ ઇસ ભૂમિ કો દ્વિતીય પક્ષ કો વિનિગ્ય મેં દેના ચાહતી હૈ। ઇસ પ્રાર્થના પત્ર કે રાલાનક કે પૈરા-2 મેં વર્ણિત ભૂમિ કો દ્વિતીય પક્ષ રાંગ્રાગણીય ભૂમિધર ખાતેદાર હૈ। ઇસ ભૂમિ કો પ્રથમ પક્ષ વિનિગ્ય મેં લેના ચાહતી હૈ। ઉઠોરો શાસન કી પ્રદેશ કે નગરીય ક્ષેત્રો મેં નિઝી પૂંજી નિવેશ કે માધ્યમ સે આવારીય યોજનાઓ કે લિએ ભૂમિ અર્જિન એવં વિકાસ કી નીતિ કે અન્તર્ગત ઉવત્ત દોનો પક્ષો ને ગ્રામ ડૂંડાહેડા પરગના લોની મેં રિસ્થિત નાલે કે પૂર્વી તથા પશ્ચિમાં પાશ્વો મેં આવારીય યોજનાઓ કે વિકાસ હેતુ ભૂમિ અર્જિત કી હૈ। ઉઠોરો શાસન કી ઉવત્ત નીતિ કે સુનિયોછિત ત્રિન્યાન્ચન કે લિએ યદુ પારસ્પરિક વિનિગ્યમ આવશ્યક હૈ। દોનો પક્ષ ઇસ પારસ્પરિક વિનિગ્ય કે લિએ પૂર્ણત: રાહગત હૈ વધોકિ યદુ દોનો પક્ષો કે લિએ સુવિધાનક હૈ। વિનિગ્ય મેં દી જાને વાલી ભૂમિ કે લગાની ગૂલ્ય તથા વિનિગ્ય મેં લી જાને વાલી ભૂમિ કે લગાની ગૂલ્ય મેં 10 પ્રતિશત રો અધિક કા અન્તર નહીં હૈ। વિનિગ્ય કી જાને વાલી ભૂમિ વિન્ની કો પટ્ટે પર યા બંધક નહીં હૈ ઔર ન હી ઇસ પર અન્ય કોઈ ભાર હૈ। વાદી દ્વારા ઉદ્ધરણ ખતૌની 1408 સે 1413 ફસલી ગ્રામ ડૂંડાહેડા ખાતા રાંખ્યા 820 વ 212 દાખિલ કી ગઈ હૈ।



પ્રાર્થના પત્ર પર તહરીલદાર ગાજિયાબાદ રો આખ્યા પ્રાસ કી ગઈ। તહરીલદાર ગાજિયાબાદ કી આખ્યા દિનાંક 06-07-2006 પ્રાસ હુએ। "તહરીલ આખ્યા મેં કહા ગયા હૈ કે લેખાપોલ કે પારા ઉપલબ્ધ જિલ્લ્ય બન્દોવરત સે પ્રશનગત સારા રાંખ્યાઓ રો ઇસ ભૂમિ કી કિર્મ જીવીષ કે અનુરાર ઉગાવ પરતા રેટ જાત કિયા ગયા તથા દોનો પક્ષો કી ભૂમિયો કા તુલનાત્મક ઉપલબ્ધ પત્ર તૈયાર કિયા ગયા। ગ્રામ ડૂંડાહેડા કી ભૂમિ જો પ્રથમ પક્ષ કી સંક્રાગણીય ભૂમિધરી હૈ તથા

ગૈરો રફેયર પ્રાંલિઓ

કર્તૃપાન ખાતારાંઓ	અરારા રાંલ	દોક્રફલ	કિરમ જરીન	લગાની દર પ્રતિ વીધા	લગાની દર પ્રતિ ડો	લગાની ગૂલ્યાંકન	વિસરણ
1	2	3	4	5	6	7	8
820	825	0.2780	રોવટા રોંલ	2.72	10.74	2.9857	
						2.9857	

1. કાર્યકારી કી બેન્કારી કી માટે 18.8.06
 2. કાર્યકારી કી બેન્કારી કી માટે 19.8.06
 3. કાર્યકારી કી બેન્કારી કી માટે 19.9.06
 4. કાર્યકારી કી બેન્કારી 6.5.6

કો. નં.
જાતા. નં.

ATTESTED

CRIMINAL ATTACHE
S.D.M.O.

ग्राम ढूँडाहेड़ा की भूमि जो द्वितीय पक्ष की संक्रमणीय भूमिधरी है तथा विनियम द्वारा प्रथम पक्ष की भूमि मिलनी है, के खसरों का विवरण :-

गै0 ऐसोटैक प्रा0 लि0

वर्तमान खातारां0	खसरा सं0	क्षेत्रफल	किरण जमीन	लगानी दर प्रति बीघा	लगानी दर प्रति है0	लगानी मूल्यांकन	विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
212	1703	0.226	सेवटा अ0	3.67	14.50	3.2770	
						3.2770	

प्रथम पक्ष का लगानी भूल्यांकन	2.9857
द्वितीय पक्ष का लगानी मूल्यांकन	3.2770
अ.पा.र	0.2913
% भूल्यांकन	9.7%

उपरोक्त तुलनात्मक विवरण से यह स्पष्ट है कि दोनों पक्षों के मध्य किये जाने वाले विनियम के लिए प्रस्तावित खसरा संख्याओं के लगानी रेटों में 10 प्रतिशत से कम का अन्तर है। दोनों पक्ष उक्त भूमियों के संक्रमणीय भूमिधर हैं। इसलिये धारा 161 ज0वि0अधि0 के अन्तर्गत आवेदक की भूमि का विनियम किये जाने की संरक्षित आव्यास सेवा में प्रेपित है ”

पाद चर्ज कर गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद व नगर निगम गाजियाबाद को आवालय के पत्र राख्या 479/अहलमद/2006 दिनांक 07.07.2006 के द्वारा उपरोक्त तम्बरों के विनियम के सम्बन्ध में आपत्ति/आख्या दिनांक 15.07.2006 तक उपलब्ध कराने के लिए नोटिस जारी किया गया किन्तु इनकी ओर से नियत दिनांक तक कोई आपत्ति/आख्या उपलब्ध नहीं कराई गई है। उ0प्र0 सरकार को विद्वान नामिका वकील राजरव के माध्यम से पैरवी करने हेतु समन जारी किया गया इनकी ओर से भी कोई आपत्ति/आख्या लिखित में प्रस्तुत नहीं की गई।

उग्र पक्षों के अधिवतागणों व विद्वान नामिका वकील राजरव के तर्कों को सुना “या ऐवं पत्रावली पर उपलब्ध समर्त साक्षों का परीक्षण किया गया। तहसील की जाँच आख्या दिनांक 06.07.2006 से स्पष्ट है कि ग्राम ढूँडाहेड़ा की प्रश्नगत भूमि वादी/प्रतिवादी की संक्रमणीय भूमिधरी भूमि हैं एवं दोनों पक्षों के मध्य किये जाने वाले विनियम के लिए प्रस्तावित खसरा संख्याओं के लगानी रेटों में 10 प्रतिशत से कम का अन्तर है चूंकि ज0वि0अधि0 की धारा 161 के प्राविधानों के अनुसार उपरोक्त विनियम के लिए प्रस्तावित भूमियों के लगानी रेटों में 10 प्रतिशत से कम का अन्तर है इसके अतिरिक्त तहसील की जाँच आख्या में उपरोक्त भूमि का विनियम किये जाने की सरक्षित की गई है तथा किसी भी पक्ष को कोई आपत्ति नहीं है अतः पत्रावली पर उपलब्ध राक्षयों के आधार पर वादी का प्रार्थना पत्र रवीकार करते हुए प्रश्नगत भूमि को विनियम किया जाना उचित प्रतीत होता है।


जिम्मेदार
प्रतिवादी

जिम्मेदार
वकील

प्रतिवादी
वकील

आदेश

उपरोक्त विवेचना के आधार पर वादी मै० स्फेयर प्रा० लि०, बी-४७, कनाट प्लॉस, नई दिल्ली के ग्राम लून्डाहेडा के खाता संख्या ८२० के खसरा नम्बर ८२५ रकमा ०.२७८० है० की भूमि का प्रतिवादी मै० एसोटेक रियलटी प्रा० लि० एफ २७/२८, सैकटर-१८, नोएडा के ग्राम लून्डाहेडा के खाता संख्या २१२ के खसरा नम्बर १७०३ रकमा ०.२२६० है० की भूमि से विनिगय स्वीकार किया जाता है। आदेश की एक प्रमाणित प्रतिलिपि तहसीलदार गाजियावाद को इस आशय से भेजी जाये तिः वह उपरोक्त आदेशों का राजस्व अभिन्नता में अपल दरागद करते हुए अनुपालन आख्या एक राष्ट्राह के अन्दर इस न्यायालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित वरे।


(धर्मेन्द्र प्रताप सिंह)
उपजिलाधिकारी/सहायक कलेक्टर
(प्रथम श्रेणी) गाजियावाद।